

पत्र सूचना शाखा

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र०

राज्यपाल ने किया उत्तर प्रदेश के प्रथम 'प्लाज्मा बैंक' का उद्घाटन

कोरोना संक्रमण से ठीक हुए लोग अधिक से अधिक

प्लाज्मा दान करें - राज्यपाल

लखनऊ: 15 अगस्त, 2020

उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के ट्रांसप्लूजन मेडिसिन विभाग द्वारा स्थापित उत्तर प्रदेश का प्रथम 'प्लाज्मा बैंक' का आज राजभवन से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। राज्यपाल ने इस अवसर पर अपील की कि कोरोना संक्रमण से ठीक हुए लोग अधिक से अधिक प्लाज्मा दान करें। यह देश की सेवा और मानव सेवा का महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने कहा कि अगर किसी संक्रमित व्यक्ति की जान बचेगी, तो उसके साथ ही उसका पूरा परिवार दुआ ही देगा।

श्रीमती पटेल ने अपने सम्बोधन में कहा कि प्लाज्मा थेरेपी में मरीज के शरीर में एंटीबाँडीज पहुंचाकर उसे वायरस से लड़ने के लिए बेहतर बनाया जाता है। जब किसी व्यक्ति को कोरोना वायरस का संक्रमण होता है तो उसका शरीर संक्रमण से लड़ने के लिए उसके खून में मौजूद प्लाज्मा में एंटीबाँडी का निर्माण करने लगता है तथा प्लाज्मा में मौजूद यही एंटीबाँडी 'कोरोना वायरस' के संक्रमण को समाप्त करने में मदद करती है।

राज्यपाल ने कहा कि कोविड-19 अत्यंत सूक्ष्म वायरस जनित एक महामारी है। इसने पूरे विश्व को काफी कुछ सीखने एवं सोचने पर मजबूर कर दिया है। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो कोरोना संक्रमण के चलते देश के चिकित्सालयों में वेन्टीलेटर्स की संख्या को बढ़ाया गया है। नवाचार के माध्यम से नये बनने वाले वेन्टीलेटर्स पहले की अपेक्षा कम मूल्य में उपलब्ध हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार चिकित्सा क्षेत्र में उपयोग हेतु पी0पी0ई0 किट का पहले हम आयात करते थे तथा सीमित मात्रा में मास्क एवं गलव्स का उत्पादन देश में होता था, परन्तु कोरोना के प्रभाव के चलते आज देश में प्रतिदिन बड़ी संख्या में पी0पी0ई0 किट, मास्क का उत्पादन हो रहा है। इस क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर भी बने हैं।

राज्यपाल ने कहा कि 'कोरोना वायरस' से संक्रमित मरीज के इलाज हेतु अभी तक न कोई सटीक दवा है एवं न ही इसके रोकथाम हेतु कोई वैक्सीन ही बन पायी है। ऐसी स्थिति में किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ में 'प्लाज्मा बैंक' की स्थापना 'कोरोना वायरस' महामारी से लड़ने में अहम

रुल अदल करेगल एवं इससे प्रदेश के कोरोना वलरस से संक्रमित मरीजुं के इललज में 'प्ललज्मल बैंक' मील कल पत्थर सलबित हु सकतल है।

इस अवसर पर अडर मुख्य सचिव रलज्यडलल श्री महेश कुडलर गुडुतल, किंग जलरुज चिकित्सल विश्वविदुडललय के कुलडडति लेडुडिटनेंट जनरल डलँ0 विडडिन डुरी, विडडलगलधुडकुष, डुरलंसडुडुऑन मेडिसिन विडडलग डुरु0 तुललकल चनुदुरल सहित अनुड अडुकरलरी डुी उडसुथित थे।

ओ0डुी0रलड/रलजडवन (16/11)



